



नकली और लो क्वालिटी स्पेयर पार्ट से जाम हो रहे लेदर, बीच रास्ते में रुक रही बसें

हिंदी न्यूज़ |

हरियाणा |

सिरसा

Publish Date: Sun, 10 Mar 2019 10:36 PM (IST)



जागरण संवाददाता, सिरसा:

हरियाणा रोडवेज की बसों में इन दिनों ब्रेक फेल और लेदर जाम होने के मामले सामने आ रहे हैं। बसों की ब्रेक फेल और लेदर जाम होने के कारण बस हादसा भी हो सकता है। इसका मुख्य कारण रोडवेज स्पेयर पार्ट की निम्न क्वालिटी माना जा रहा है। स्पेयर पार्ट में रेचड, लेदर और ऑयल सील के नकली व लो क्वालिटी के पार्ट आने के कारण इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं।

रविवार को भी हिसार से सिरसा बस स्टैंड पर बस के लेदर जाम हो गए जिसके कारण बस को वर्कशाप तक भी नहीं ले जाया जा सका। ऐसे में बस को ठीक करने के लिए रोडवेज वर्कशाप के मैकेनिकों को ही बस स्टैंड पर बुलाना पड़ा। वहीं इससे पहले भी कई तरह के हादसे हो चुके हैं। व्हील सर्विस में ऑयल सील डाली जाती है जिसका सीधा कनेक्शन ब्रेक से होता है। ऐसे में समय पर सर्विस न होने के कारण और नकली व लो क्वालिटी के स्पेयर पार्ट आने के कारण सील लीक होने के मामले भी आ रहे हैं जिसके कारण ब्रेक फेल होने का मुख्य कारण रहता है। यात्रियों के साथ हो सकती है घटना

रोडवेज में नकली व ला क्वालिटी का स्पेयर पार्ट आने के कारण यात्रियों के साथ कभी भी घटना घट सकती है। हालांकि कुछ दिन पहले ही ब्रेक फेल होने के कारण रोडवेज की बस हिसार के चिकनवास के टोल में भी बस टकरा चुकी है। जबकि इसमें किसी यात्री को नुकसान नहीं हुआ। रोडवेज में मैकेनिकों की भी कमी

सिरसा डिपो में मैकेनिकों की भारी कमी आने के कारण रोडवेज बसों को ठीक करने का काम भी समय पर पूरा नहीं हो पा रहा। पिछले लंबे समय में रोडवेज में वर्कशाप में कर्मचारियों की भर्ती नहीं हो पाई। ऐसे में आइटीआइ के ट्रेनिंग करने वाले विद्यार्थियों के सहारे से रिपेयरिंग का काम चल रहा है। रोडवेज में नकली और लो क्वालिटी स्पेयर पार्ट

रोडवेज में नकली और लो क्वालिटी का स्पेयर पार्ट आने के कारण ब्रेक फेल और लेदर जाम होने के मामले सामने आ रहे हैं। जबकि कई बार इस तरह की शिकायत भी दे चुके हैं लेकिन पार्टों की क्वालिटी में कोई सुधार नहीं आ रहा।

राम कुमार, कर्मचारी नेता, सिरसा डिपो

हाई क्वालिटी के आ रहे पार्ट

रोडवेज में हाई क्वालिटी के स्पेयर पार्ट आ रहा है। विभागीय स्तर पर पार्ट की खरीददारी की जाती है। स्पेयर पार्ट्स निम्नतर होने जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वह निराधार है। अभी तक इसकी कोई भी शिकायत नहीं आई है।

खूबराम कौशल, जीएम, सिरसा डिपो

Posted By: Jagran

Source: <https://www.jagran.com/haryana/sirsa-duplicate-and-low-quality-leather-strapped-from-the-spare-part-buses-staying-in-the-middle-road-19033096.html>